



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 18] नई दिल्ली, दिसम्बर 13—दिसम्बर 19, 2009, शनिवार/अग्रहायण 22—अग्रहायण 28, 1931
No. 18] NEW DELHI, DECEMBER 13—DECEMBER 19, 2009, SATURDAY/AGRAHAYANA 22—AGRAHAYANA 28, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक् संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2009

का.नि.आ. 35.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिगनल कोर केन्द्रीय सिविल सेवा (अध्यापन कर्मचारिवृन्द के समूह 'क' पद) दूरसंचार इंजीनियरी सैनिक महाविद्यालय, महु भर्ती नियम, 2004 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिगनल कोर केन्द्रीय सिविल सेवा (अध्यापन कर्मचारिवृन्द के समूह 'क' पद) दूरसंचार इंजीनियरी सैनिक महाविद्यालय, महु भर्ती संशोधन नियम, 2009 है;
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. सिगनल कोर केन्द्रीय सिविल सेवा (अध्यापन कर्मचारिवृन्द के समूह 'क' पद) दूरसंचार इंजीनियरी सैनिक महाविद्यालय, महु भर्ती नियम, 2004 की अनुसूची में—
 - (i) आचार्य के पद से संबंधित क्रम संख्या 1, पर स्तंभ 13 के सामने विद्यमान प्रविष्टि में निम्नलिखित रखी जाएंगी, अर्थात् :—
“समूह” “क” विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के लिए) गठित होगी :—

(1) अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय, प्रशासनिक रूप से पद से संबंधित	--अध्यक्ष
(2) अपर महानिदेशक सिगनल कर्मचारिवृन्द, रक्षा मंत्रालय (सेना) समेकित मुख्यालय सिगनल महानिदेशक	--सदस्य
(3) उप कमांडेंट, दूर संचार इंजीनियरी सैनिक महाविद्यालय, महु	--सदस्य”
 - (ii) सहायक आचार्य के पद से संबंधित क्रमसंख्या 2 पर, स्तंभ 13 के सामने विद्यमान प्रविष्टि में निम्नलिखित रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“समूह ‘क’ विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के लिए) गठित होगी :—

- | | |
|---|---------|
| (1) अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय, प्रशासनिक रूप से पद से संबंधित | अध्यक्ष |
| (2) अपर महानिदेशक सिगनल कर्मचारिवृंद, रक्षा मंत्रालय (सेना) समेकित मुख्यालय सिगनल महानिदेशक | —सदस्य |
| (3) उप कमांडेंट, दूर संचार इंजीनियरी सैनिक महाविद्यालय, महु | —सदस्य” |

(iii) प्राध्यापक के पद के सामने स्तंभ 13 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि में निम्नलिखित रखी जाएगी, अर्थात् :—

“समूह” ‘क’ विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के लिए) गठित होगी :—

- | | |
|---|----------|
| (1) अपर सचिव, रक्षा मंत्रालय, प्रशासनिक रूप से पद से संबंधित | —अध्यक्ष |
| (2) अपर महानिदेशक सिगनल कर्मचारिवृंद, रक्षा मंत्रालय (सेना) समेकित मुख्यालय सिगनल महानिदेशक | —सदस्य |
| (3) उप कमांडेंट, दूर संचार इंजीनियरी सैनिक महाविद्यालय, महु | —सदस्य” |

टिप्पण—मूल नियम का.नि.आ. 76 तारीख 17 मई, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

[फा. सं. बी/44522/आरआरएस/सिगनल-4 (सी)-iii/425/09/र. (नि.)]

एस. एस. एस. सर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 10th December, 2009

S.R.O. 35.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Corps of Signals Central Civil Services (Group ‘A’ posts of teaching staff) Military College of Telecommunication Engineering, Mhow Recruitment Rules, 2004, namely :—

1. (1) These rules may be called the Corps of Signals Central Civil Services (Group ‘A’ Posts of Teaching Staff) Military College of Telecommunication Engineering, Mhow Recruitment (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the Corps of Signals Central Civil Services (Groups ‘A’) Posts of Teaching Staff Military College of Telecommunication Engineering, Mhow Recruitment Rules, 2004,

(1) At serial number 1 relating to the post of Professor, in column 13 against the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

“Group ‘A’ Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :—

- | | |
|--|-----------|
| (1) Additional Secretary, Ministry of Defence, administratively concerned with the post | —Chairman |
| (2) Additional Director General Signals Staff, Integrated Headquarters of Ministry of Defence, (Army) Directorate General of Signals | —Member |
| (3) Deputy Commandant, Military College of Telecommunication Engineering, Mhow | —Member |

(ii) At serial number 2 relating to the post of Assistant Professor, in column 13 against the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

“Group” ‘A’ Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :—

- | | |
|--|-----------|
| (1) Additional Secretary, Ministry of Defence, administratively concerned with the post | —Chairman |
| (2) Additional Director General Signals Staff, Integrated Headquarters of Ministry of Defence, (Army) Directorate General of Signals | —Member |
| (3) Deputy Commandant, Military College of Telecommunication Engineering, Mhow | —Member |

(iii) Against the post of Lecturer, in column 13 against the existing entry, the following shall be substituted, namely :—

“Group ‘A’ Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :—

- | | |
|--|-----------|
| (1) Additional Secretary, Ministry of Defence, administratively concerned with the post | —Chairman |
| (2) Additional Director General Signals Staff, Integrated Headquarters of Ministry of Defence, (Army) Directorate General of Signals | —Member |
| (3) Deputy Commandant, Military College of Telecommunication Engineering, Mhow | —Member |

Note : The principal rules were published vide S.R.O. 76, dated 17th May, 2004.

[F. No. B/44522/RRs/Sigs-4 (c)-iii/425/09/D/(A)]

S. S. S. SARMA, Under Secy..

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2009

का.नि.आ. 36.—राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का 31) की धारा 12 की उपधारा (1) और (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा डॉ. दसारी नारायण राव, संसद सदस्य (राज्य सभा) की नियुक्ति राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में अधिसूचित करती है तथा इसके लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित सा.नि.आ. 76-ई, दिनांक 10 अक्टूबर, 1983 में निम्नलिखित संशोधन करती है; नामतः :—

उक्त अधिसूचना में, “धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (1) के तहत” शीर्षक के अधीन प्रविष्टि (13), के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी; नामतः :—

“(13) डॉ. दसारी नारायण राव, संसद सदस्य (राज्य सभा) 01 दिसंबर, 2009 से 30 नवंबर, 2010 तक की अवधि के लिए निर्वाचित।”

[सं. पी सी 11 (51)/92/रक्षा (जी एस-6)]/खण्ड-2]

रबीन्द्र प्रसाद, उप सचिव

New Delhi, the 9th December, 2009

S.R.O. 36.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (1A) of Section 12 of the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948), the Central Government hereby notifies the appointment of Dr. Dasari Narayana Rao, Member of Parliament (Rajya Sabha) as Member of the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps and for that purpose amends the notification of the Government of India in the Ministry of Defence SRO No. 76-E, dated the 10th October, 1983, as amended from time to time, as follows, namely :—

In the said Notification, under the heading “Under clause (i) of sub-section (1) of Section 12”, for the entry (13), the following entry shall be substituted, namely :—

“(13), Dr. Dasari Narayana Rao, Member of Parliament (Rajya Sabha) elected with effect from the 1st December, 2009 upto 30th November, 2010”

[No. PC-11(51)92/D (GS-VI)]

RABINDRA PRASAD, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2009

का.नि.आ. 37.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय में भंडारी श्रेणी-1, भंडारी श्रेणी-2, भोजनालय पर्यवेक्षक और जमादार सफाईवाला के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तोपखाना महानिदेशालय (भंडारी श्रेणी-1, भंडारी श्रेणी-2, भोजनालय पर्यवेक्षक और जमादार सफाईवाला) (समूह ‘ग’ और ‘घ’ पद) भर्ती नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. भंडारी श्रेणी-1	2 (2009)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अननुसचिवीय अराजपत्रित अनौद्योगिक	रु. 5200 20200 ग्रेड वेतन 2400	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
---	--	-------------------------------

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं

भर्ती की पद्धति, सीधे भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)

प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति : ऐसे भंडारी श्रेणी-2 जिन्होंने 5200-20200 ग्रेड वेतन 1900 रु. के वेतनमान की उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में) जिसमें निम्नलिखित होंगे:—	लागू नहीं होता।
1. कमांडेंट या कोई अन्य अधिकारी जो कर्नल की पंक्ति से कम का न हो —अध्यक्ष	
2. उप-निदेशक या तोपखाना 10 —सदस्य	
3. अवर सचिव/रक्षा मंत्रालय/संबंधित स्थापना से कमीशन प्राप्त अधिकारी —सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. भंडारी श्रेणी-2	4 (चार)*(2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अननुसचिवीय अराजपत्रित अनौद्योगिक	रु. 5200-20200 ग्रेड वेतन 1900	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)
						टिप्पण : आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(8)	(9)	(10)
आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त संस्था या बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य वांछनीय : मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष और स्थानांतरित किए गए व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।

(11)	(12)
शत प्रतिशत आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	स्थानान्तरण : ऐसे व्यक्ति जिन्होंने रक्षा सेवाओं की निम्नतर विरचनाओं में सदृश या समतुल्य या उच्च पद धारण किए हुए हैं।

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—	लागू नहीं होता।
1. कमांडेंट या कोई अन्य अधिकारी जो कर्नल की पंक्ति से कम का न हो —अध्यक्ष	
2. उप-निदेशक या तोपखाना 10 —सदस्य	
3. अवर सचिव/रक्षा मंत्रालय/संबंधित स्थापना से कमीशन प्राप्त अधिकारी —सदस्य	

4441 GI/09-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. भोजनालय पर्यवेक्षक	1 (एक)(2009)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अननुसचिवीय अराजपत्रित अनौद्योगिक	रु. 5200 20200 ग्रेड वेतन 2400	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
(8)			(9)		(10)	
(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य जिसके साथ खानपान में अनुभव/होटल प्रबंधन में डिप्लोमा को अधिमानता दी जाएगी।				लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष और स्थानांतरित किए गए व्यक्तियों के लिए कोई परीक्षा नहीं।	
(ख) भूतपूर्व कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारी और गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारी जिन्होंने भोजनालय में पांच वर्ष का आवश्यक अनुभव रखते हैं।						
(11)			(12)			
शत प्रतिशत आमेसन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा			आमेसन			
(13)			(14)			
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—					लागू नहीं होता।	
1 कमांडेंट या कोई अन्य अधिकारी जो कर्नल की पंक्ति से कम का न हो —अध्यक्ष						
2 उप-निदेशक या तोपखाना 10 —सदस्य						
3 अवर सचिव/रक्षा मंत्रालय/संबंधित स्थापना से कमीशन प्राप्त अधिकारी —सदस्य						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. जमादार सफाईवाला	1 (एक)(2009)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' अननुसचिवीय अराजपत्रित अनौद्योगिक	रु. 4440 7440 ग्रेड वेतन 1400	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(8)			(9)		(10)	
लागू नहीं होता			लागू नहीं होता		नहीं	

(11)	(12)
शतः प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	<p>प्रोन्नति : ऐसा सफाईवाला जिसने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की हो ।</p> <p>टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।</p>

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—	लागू नहीं होता
1. कमांडेंट या कोई अन्य अधिकारी जो कर्नल की पक्ति से कम का न हो —अध्यक्ष	
2. उप-निदेशक या तोपखाना 10 —सदस्य	
3. अवर सचिव/रक्षा मंत्रालय/संबंधित स्थापना से कमीशन प्राप्त अधिकारी —सदस्य	

[फा. सं. ए/10080/पीसी-5/आर्टी-10बी/488/डी (आपाटस)/09]

एस. एस. एस. सर्मा, अवर सचिव

New Delhi, the 11th December, 2009

S.R.O. 37.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Store Keeper Grade-I, Store Keeper Grade-II, Mess Supervisor and Jamadar Safaiwala in the Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate General of Artillery (Store Keeper Grade-I, Store Keeper Grade-II, Mess Supervisor and Jamadar Safaiwala) (Group-‘C’ and Group-‘D’ posts), Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, other qualification etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualifications.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruitment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Store Keeper Grade-I	02* (2009) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Ministrial Non-Gazetted, Non-Industrial.	Pay Band Rs. 5200—20200 Grade Pay Rs. 2400	Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	No

Method of recruitment whether by promotion or by absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/absorption Grades from which promotion/ is to be made.
(11)	(12)

By promotion

Promotion : Store Keeper Grade-II in the pay scale of Rs. 5200—20200 and Grade Pay Rs. 1900 with eight years of regular service in the grade.

Note : where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered for promotion, provided they are not short of requisite qualifying eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors, who have already completed such qualifying/eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Group 'C' Departmental Promotion Committee for promotion) consisting of :

Not applicable.

1. Commandant or any other officer not below the rank of Colonel —Chairman
2. Deputy Director of Artillery 10 —Member
3. Under Secretary, Ministry of Defence/Commissioned Officer from the respective establishment —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Store Keeper Garde-II	4* (Four) (2009) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Ministerial, Non-Gazetted, Non-Industrial.	Rs. 5200-20200 Grade Pay Rs. 1900.	Not applicable	Not applicable	18 to 27 years. (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note : The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange are asked to submit the names.

(8)

(9)

(10)

Essential Qualifications :

Matriculation or equivalent from a recognized Institution or Board.

Desirable :

Bachelor's Degree from a recognized University.

Not applicable

Two years for direct recruits and no probation period for transferees.

(11)

(12)

Hundred percent by absorption failing which by direct recruitment.

Transfer : Persons holding similar or equivalent or higher posts in the lower formations of the Defence Services.

(13)

(14)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of :

Not applicable.

1. Commandant or any other Officer not below the rank of Colonel —Chairman
2. Deputy Director of Artillery 10 —Member
3. Under Secretary, Ministry of Defence/Commissioned Officer from the respective establishment —Member

4441 GI/09-3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Mess Supervisor	1* (One) (2009) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Ministerial, Non-Gazetted, Non-Industrial.	Rs. 5200—20200 Grade Pay Rs. 2400	Not applicable	Not applicable	18 to 27 years. (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which Employment Exchange are asked to submit the names.
(8)			(9)		(10)	
(a) Matriculation or equivalent from a recognized Board with experience in Catering/Diploma in Hotel Management preferred.			Not applicable		Two years for direct recruits and no probation period for transferees.	
(b) In the case of Ex-Junior Commissioned Officer (JCO) and Non-Commissioned Officer (NCO), five years of experience in messes is essential.						
(11)			(12)			
Hundred percent by absorption failing which by direct recruitment.			Absorption : Persons working in similar or equivalent or higher grades in the lower formations of the Defence Services.			
(13)			(14)			
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :			Not applicable.			
1. Commandant or any other Officer not below the rank of Colonel			—Chairman			
2. Deputy Director of Artillery 10			—Member			
3. Under Secretary, Ministry of Defence/Commissioned Officer from the respective establishment			—Member			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Jamadar Safaiwala	1* (One) (2009) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'D', Non-Ministerial, Non-Gazetted, Non-Industrial.	Rs. 4400—7440 Grade Pay Rs. 1400.	Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
: Not applicable	Not applicable	No
(11)	(12)	
Hundred percent by promotion.	<p>Promotion : Safaiwala with seven years of regular service in the grade.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of requisite qualifying/eligibility service or two years whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying/eligibility service.</p>	
(13)	(14)	
Group 'D' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :		Not applicable.
1. Commandant or any other Officer not below the rank of Colonel	—Chairman	
2. Deputy Director of Artillery 10	—Member	
3. Under Secretary, Ministry of Defence/Commissioned Officer from the respective establishment.	—Member	

[F. No. A/10080/PC-5/Arty-10B/488/D(Apptts.)/09]

S. S. S. SARMA, Under Secy.

